

भारत के राज्यम्, आधारग, ने भाग -II, अंग 3, उन-उन्हें [८५]

### मै प्रभावशाली

भारत लर्नर  
पिता मित्रालय  
राजत्य चिकित्सा  
कोटि प्रथम एव दौर्धे

नई दिल्ली, दिसेंबर । ब्रह्मणी, १९८८, १८८

### अधिकृता

आधिकृत

आठआठ । [३] आयक्त अधिकृतीय, १९६। । १९८१ व ४३] की घाता १२० की अधिकृता । । और [२] घाता पुदत शास्त्रीयों ने पुस्तीय बते हुए केवलीय प्रत्यय एव बोड़ इत्यादा भारत के राज्यम्, आधारग में लिंग ११ ब्रह्मणी, १९९३ ले पुस्तीय लिंग ११ ब्रह्मणी, १९९० की अधिकृता तंत्र अध्यात्म ५०६[३] में निम्नलिखित लिंगायत द्वारा है । ।  
अर्थातः— अमृती [१] एव प्रथम दृष्टि १२ में अध्या २,३ और ०४ में कौपान दुष्प्रियियों के स्थान पर निम्नलिखित रूप वास्तव । । अर्थातः—

\* दृष्टि आयक्त अधिकृता), नई दिल्ली । । [आयक्त अधिकृता, दिल्ली-१,  
दिल्ली, नई दिल्ली ।

। । [आयक्त अधिकृता, दिल्ली-१। । ,  
नई दिल्ली ।

। । [आयक्त अधिकृता, दिल्ली-१। । ,  
नई दिल्ली ।

। । [आयक्त अधिकृता, दिल्ली-१। । ,  
नई दिल्ली ।

। । [आयक्त अधिकृता, दिल्ली-१। । ,  
नई दिल्ली ।

[३] अथ दृष्टि १३ में कौपान दुष्प्रियियों के स्थान पर निम्नलिखित दुष्प्रियियों ने रूप वास्तवा, अर्थातः—

\* दृष्टि आयक्त अधिकृता-II, दिल्ली । नई दिल्ली । । ।

आयक्त अधिकृता, दिल्ली-१। , नई दिल्ली ।

आयक्त अधिकृता, दिल्ली-१। , नई दिल्ली ।

ग्रामीण आयकर आयुक्त, दिल्ली-२, नई दिल्ली

अधिकृतना संख्या - 10254

ग्रामीण  
आयकर

प्रश्न वेह वौधरी।  
अपर सचिव, भारत सरकार

फ्रा० सं० 189/22/95- आयकर निर०।

सेवा में

प्रधान,  
भारत सरकार प्रेत,  
रिंग रोड, माधापुरी ओडीगिक क्लैव,  
ट्रिनिट राजौरी गार्डन।  
नई दिल्ली।

TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (iii) OF THE  
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY

GOVERNMENT OF INDIA  
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

\*\*\*\*\*  
NEW DELHI THE 1 Jan. 1997.

NOTIFICATION  
(INCOME-TAX)

S.O. (E), - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendment in the notification S.O.No.548 (E), dated 9th July, 1990 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 9th July, 1990, namely : -

In the schedule - (a) in Sl.No.12, for the existing entries in column 2, 3 and 4 the following entries shall be substituted, namely : -

"Chief Commissioner of Income-tax, Delhi, New Delhi.	New Delhi	(i) Commissioner of Income tax, Delhi-I, New Delhi. (ii) Commissioner of Income tax, Delhi-IV, New Delhi. (iii) Commissioner of Income tax, Delhi-VI, New Delhi. (iv) Commissioner of Income tax, Delhi-VIII, New Delhi. (v) Commissioner of Income tax, Delhi-XI, New Delhi.
---	-----------	--

(b) In Sl.No. 13, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely : -

"Chief Commissioner of Income-tax-II, Delhi, New Delhi.	New Delhi	(i) Commissioner of Income tax, Delhi-II, New Delhi (ii) Commissioner of Income-
--	-----------	--

(iii) Commissioner of Income-tax  
Delhi-X, New Delhi.

Notification No. 10254

*H.K.C.*  
( H.K. CHOWDHARY )  
Under Secretary to the Government of India

( F.No. 189/22/95-ITA-I )

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Rajouri Garden),  
New Delhi.